

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, शुक्रवार, विसम्बर 4, 1970/अग्रहायण 14, 1892

No. 197] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1970/AGRAHAYANA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December 1970

No. 5(11)-Tex(D)/67.—The Government of India have been pleased to extend the tenure of the Jute Textiles Consultative Council constituted under the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Deptt. of Foreign Trade) Resolution of even number dated the 26th July, 1969, by one year with effect from 26th July, 1970.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 1970

एस० एन० सं० 5(11)—टि.स (ई)/67.—भारत सरकार, भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के समसंख्या के संकल्प दिनांक 26 जुलाई, 1969 के अन्तर्गत गठित पटसन वस्त्र सलाहकार परिषद के कार्यकाल को 26 जुलाई, 1970 से एक वर्ष के लिये सहर्ष बढ़ाती है।

बी० डी० कुमार,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।